

Date: 14th February, 2025

To,

**Bombay Stock Exchange Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001
MH

Ref.: Superior Industrial Enterprises Limited (Scrip Code: 519234)

Subject: Newspaper Advertisement- Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024

Dear Sir/Madam,

Please find the enclosed herewith Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2024 as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as published in the newspaper named as Financial Express (English Newspaper) and Metro Media (Hindi Newspaper) on Friday, 14<sup>th</sup> February, 2025 with regard to the captioned subject.

Kindly take the same into record for your further assistance.

Thanking You,

Yours faithfully
For Superior Industrial Enterprises Limited

Anmol Sharma Company Secretary cum Compliance Officer Membership No.: A65965

**Encl.:** As above

**FINANCIAL EXPRESS** 

49

Rs. In lakhs

#### The Federal Bank Limited Ranveer Bhavan, 9th Chopasani Road, Jodhpur, Rajasthan 342003

FEDERAL BANK YOUR PERFECT BANKING PARTNER Regd. Office: Alwaye, Kerala

### **PUBLIC NOTICE - GOLD AUCTION**

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on 13/03/2025 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at The Federal Bank Ltd, Branch Jodhpur, Contact Number -7014052508 for further information. In case e -auction is not materialized for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the

items on	any subsequent date	e/s without further notice.
SI. No.	Branch Name	Loan Account Number
1	Jodhpur	15546800006525
2	Jodhpur	15546800006624
3	Jodhpur	15546800006640
4	Jodhpur	15546800006699
Date: 11	.02.2025,	Sd/-, Authorised Office

# (i) IDBI BANK

| Place: Jodhpur

IDBI BANK LTD. **Branch: Sushant Lok Gurgaon** 

For The Federal Bank Ltd.

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORANAMENTS IDBI BANK LTD

Offers are invited for the public auction of the gold ornaments, pledged in favour of the Bank, for the purpose of recovering the dues owed by the Borrower(s)I to the Bank, as detailed below. The auction will be conducted at 2 P.M. onwards on 03rd March 2025 in the Bank's premises at 6-7 Vipul Square, Sushant Lok Phase 1, B-Block, Gurgaon, Pin-122002.

SI No	Account No.	Name of the Borrower & Address	Description of gold ornaments pledged	Gross weight in Grams./Net wt in 22c eq	EMD in Rs.	Reserve price in Rs.
1.	01716711		1.Two Earrings	3.00/2.47	780	15600
	00004923	0004923 Matia Khadianta Matia Kendra Para,	2.One Pendent	6.00/4.75	1500	30000
		Kendrapara,	3 Two Rings	6.80/4.50	1425	28500
=0,		Odisha Pin- 754215 Mobile-8826956923	Total	15.80/11.72	3705	74100

The auction shall be subject to the terms and conditions of the sale stipulated by the Bank, a copy of which shall be displayed in the notice board of Sushant Lok Gurgaon Branch from 14.02.2025 to 28.02.2025 and interested parties may refer the same. A bidder Participating in the auction shall be deemed to have full knowledge of the aforesaid terms and conditions of sale. Last date of submission of the Bid is 28.02.2025. Place: Gurgaon

The Federal Bank Ltd, Br. Jodhpur,

Date: 13.02.2025

FEDERAL BANK Ranveer Bhawan, 9th Chopasni Road, Jodhpur, Rajasthan - 342003 REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Authorized Officer, IDBI Bank, Sushant Lok Branch

### Notice is hereby given for the information of all concerned that gold ornaments

pledged under following gold loan accounts, with under mentioned branch of Bank

which are overdue for redemption, and which have not been regularized so far despite repeated notice, will be put on sale on or after 26/02/2025 as shown below. **Account Number Account Name Account Name** 15546400005901 **JESSYALEYAMMAJOSE** 15545600001686 SANJAY KUMAR MEENA 15545600001801 AVINASH SHARMA 15546400006024 ABHISHEK JOSHI PRAKASH CHANDRA JOSHI 15545600001926 **SUNITA KANWAR** 15546400006073 **SANJAY BORA DAYARAM JANGU** 15546400006339 15546400004805 **DAYARAM JANGU** 15546400006347 15546400005182 **RAVIRAJ GIRI** SANJAY BORA 15546400006362 15546400005273 TARUN DEORA **BHARAT SINGH PARMAR** 15546400005331 **RAJENDRA** 15546400006370 15546400005356 **NIKHLESH SANKHLA** 15546400006420 **PARITOSH NAHAR** 15546400005364 DAYA RAM JANGU 15546400006545 **SUNIL MEWARA** 15546400005455 HARISH BOHRA 15546400006651 TARUN DEORA 15546400006669 15546400005794 **NIKHLESH SANKHLA** 15546400005810 NIKHLESH SANKHLA **NISHITH SHARMA** 15546400007048

**BRANCH / VENUE:** Federal Bank; Br. Jodhpur, Ranveer Bhawan, 9th Chopasni Road, Jodhpur, Rajasthan - 342003 Phone: 0291 2634283/82

Email: jdp@federalbank.co.in

Date: 11.02.2025, **Authorised Officer.** Place: Jodhpur The Federal Bank Ltd.



### **KOTHARI FERMENTATION AND BIOCHEM LIMITED**

**CIN:** L72411DL1990PLC042502 Regd. Office: 16, Community Centre, First Floor, Saket, New Delhi-110017 Tel: 011-40590944 E-mail: info@kothariyeast.in, Website: www.kothariyeast.in

EXTRACT OF INAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

SI.	Y	C	Quarter ende	d	Nine mon	ths ended	Year ended	
No.	Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	
		Un-audited	<b>Un-audited</b>	<b>Un-audited</b>	<b>Un-audited</b>	Un-audited	Audited	
1	Total income from operations	3,053.028	2,516.680	2,858.186	8,205.228	7,689.550	10,888.090	
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	72.073	(155.520)	45.191	12.473	(579.750)	(392.530)	
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	72.073	(155.520)	45.191	12.473	(579.750)	(392.530)	
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	41.072	(175.000)	37.844	(24.148)	(578.110)	(491.150)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	40.377	(175.700)	39.880	(26.233)	(572.014)	(493.990)	
6	Equity Share Capital	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic : 2. Diluted :	0.274 0.274	(1.167) (1.167)	0.252 0.252	(0.161) (0.161)	(3.850) (3.850)	(3.274) (3.274)	

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Company's website (www.Kothariyeast.in) and the Stock Exchange website of BSE (http://bseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided below. For and on behalf of Board

Place: New Delhi Date: 13.02.2025



**Pramod Kumar Kothari Chairman & Managing Director** 

### **B J DUPLEX BOARDS LIMITED**

CIN: L21090DL1995PLC066281

Regd. Off: H. No.-54, G/F New Rajdhani Enclave, Near MCD Park New Delhi - 110092 Email Id: admin@anandpulp.com; Website: www.bjduplexboard.com Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2024

Destination		auarter Ende	/Q S	Nine-mon	ended		
Particulars	31.12.2024 30.09.2024 3 (Unaudited) (Unaudited) (U					31.03.2024 (Audited)	
1 Total income from operations	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	8.66	
<ol> <li>Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items.)</li> </ol>	(3.76)	(3.10)	(20.82)	(13.63)	(41.28)	(74.47)	
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.76)	(3.10)	(20.82)	(13.63)	(41.28)	(74.47)	
4 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.76)	(3.10)	(20.82)	(13.63)	(41.28)	(74,47)	
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(3.76)	(3.10)	(20.82)	(13.63)	(41.28)	(74.47)	
6 Equity Share Capital	49.29	49.29	35,77	49.29	35.77	49.29	
7 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of previous year as on 31.03.2024)	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	(202.84)	
8 Earnings per equity share (for discontinued & continuing operations):				1 10000.000	90.000	2010000	
(1) Basic	(80.0)	(0.06)	(0.42)	(0.28)	(0.84)	(1.51)	
(2) Diluted	(0.08)	(0.06)	(0.42)	(0.28)	(0.84)	(1.51)	

These Unaudited Standalone Financial Results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on Thursday, February 13, 2024.

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2024, filed with BSE Limited & the Calcutta Stock Exchange Limited ("the Stock Exchanges") under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Complete format of these Financial Results, is available on the website of BSE Limited viz. www.bseindia.com and the Company viz. www.bjduplexboard.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



For BJ DUPLEX BOARDS LIMITED SATYA BHUSHAN JAIN (WHOLE TIME DIRECTOR)

DIN: 00106272

(₹ in lakh)

DCM LIMITED Regd. Office: 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-41539170

Place: New Delhi

Date: 14.02.2025

CIN: L74899DL1889PLC000004

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

[In terms of regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, As Amended] Consolidated Standalone

ı	E	Standalone						Consolidated						
Sr. No.		For the quarter ended			Nine months ended For the year ended		For the quarter ended			Nine months ended		For the year ended		
NO	Particulars	December 31, 2024	30, 2024	0, 2024 31, 2023	31, 2024	December 31, 2023 Unaudited	March 31, 2024	December 31, 2024 Unaudited	September 30, 2024 Unaudited	December 31, 2023 Unaudited	December 31, 2024 Unaudited	December 31, 2023 Unaudited	March 31, 2024 Audited	
		Unaudited					Audited							
1	Total income from operations	27		120	27	333	358	1,734	1,663	1,868	5,241	5,437	7,084	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax)	203	(195)	(180)	(251)	(622)	(68)	2,122	130	53	2,290	44	760	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	203	(195)	(180)	(251)	(622)	(68)	2,056	71	(6)	2,098	(135)	520	
4	Total Comprehensive Income/(Expense) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Expense)]	218	(181)	(164)	(207)	(574)	(10)	2,071	85	10	2,142	(87)	581	
5	Equity Share Capital	1,868	1.868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	
6	Other equity			98	- 88		(1,088)	: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	88	(€	8	9	209	
7	Earnings/ (loss) per equity share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised)													
	Basic and diluted	1.08	(1.04)	(0.97)	(1.34)	(3.33)	(0.36)	11.00	0.38	(0.03)	11.23	(0.73)	2.79	

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on February 13, 2025. The Limited Review Report of the Statutory Auditors has been filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The details in prescribed format of the results are available on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company website i.e. www.dcm.in.

Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) for continuing and discontinuing operations)

The detailed financial results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2024, can be accessed through the below QR ccode



Place: Delhi Date: February 13, 2025 For and on behalf of the Board For DCM Limited

Jitendra Tuli

Chairman DIN: 00272930

1.51

1.51

3.73

1.97

1.97



# MMTC LIMITED

CIN No.L51909DL1963GOI004033

Core #1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi -110003.

Phone No: 24362200; 24361889 Email: mmtc@mmtclimited.com, Website: www.mmtclimited.com STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

## **ENDED DECEMBER 31, 2024** The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the guarter and the nine months

ended December 31, 2024 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on February 13, 2025.

The full format of financial results is available on the website of stock exchanges at (https://www.bseindia.com/) and (https://www.nseindia.com/) and also on the Company's Website i.e https://mmtclimited.com/under Home>> Financials >> Quarterly results.

The same can be accessed by scanning the QR code.



Date: February 13-02-2025

For MMTC LIMITED Sd/-

Ajay Kumar Misra Company Secretary

Note: the above intimation is in accordance with the Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

#### BAZEL INTERNATIONAL LTD. Registered Office: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024

CIN: L65923DL1982PLC290287, E-mail Id: bazelinternational@gmail.com; Contact no: 011-46081516; Website: www.bazelinternationalltd.com Extract of Consolidated I In-audited Financial Posults for the Quarter and Nine months anded 31st December, 2024

	Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024											
							(Rs. In Lakhs)					
SI.	Particulars	-	Quarter Ende	d	Nine mont	Year Ended						
No		12/31/2024	9/30/2024	12/31/2023	12/31/2024	12/31/2023	3/31/2024					
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)					
1	Total Income from operations	77.47	82.74	128.39	235.05	380.25	1778.75					
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9.56	61.32	104.41	112.92	-111.08	46.81					
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.56	61.32	104.41	112.92	-111.08	46.81					
4	Less: Minority Interest	(9.91)	0.00	0.00	(9.91)	0.00	0.00					
5	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.82	64.76	85.88	109.93	184.94	35.55					
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	0	0	0	0	0	0					
7	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	195.05	195.05	195.05	195.05	195.05	195.05					
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	4,198.22					
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):											
	Basic:	0.6	3.35	4.40	5.63	-9.02	1.87					
	Diluted:	0.6	3.35	4.40	5.63	-9.02	1.87					

Notes:-

Place: New Delhi

Date: 12th February, 2025

The above is an extract of detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2024. The Full format of financial results along with other line items referred in Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 is available on the Company's website www.bazelinternationalltd.com and it can also be accessed "through the QR Code given below



On behalf of Board For BAZEL INTERNATIONAL LTD Pankaj Dawar

(Managing Director) DIN: 06479649

## SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office:-25, Bazar Lane, Bengali Market, New-Delhi-110001 CIN: L15142DL1991PLC046469, Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015 E-mail: info@superiorindustrial.in, Website: www.superiorindustrial.in

UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024 Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR), 2015

Standalone Consolidated Nine months Quarter Nine months Quarter **Particulars** Ended ended Ended ended 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.03.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Audited 237.19 896.43 1360.09 446.77 417.34 2924.12 4387.10 245.38 56.70 71.19 221.43 -15.52 -12.75 134.24 280.62 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 8.89 Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items) 8.89 56.70 71.19 221.43 -15.52 -12.75 134.24 280.62 56.70 71.19 187.81 27.38 239.64 584.28 let Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 8.89 239.40 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax) 8.89 72.41 2698.58 27.38 239.40 239.64 Equity Share Capital (face value of Rs.10/- per share) 138.50 138.50 138.50 138.50 138.50 138.50 138.50 138.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Diluted:

Place: Delhi

Date: 12" February, 2025

The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results is available on the Stock Exchanges' websites.

0.06

0.06

0.41

0.41

0.51

0.51

1.36

1.36

https://www.bseindia.com) and the Company's website (superiorindustrial.in) 2. The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved at the meeting of the Board of Directors held on 12th February, 2025.

By order of the Board of Directors For and on behalf of Superior Industrial Enterprises Limited

0.28

0.28

Kamal Agarwal Managing Director DIN:02644047

#### BAZEL INTERNATIONAL LTD. Registered Office: II-B/20, First Floor, Lajpat Nagar, New Delhi-110024

CIN: L65923DL1982PLC290287, E-mail Id: bazelinternational@gmail.com; Contact no: 011-46081516; Website: www.bazelinternationalltd.com Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2024

(Rs. In Lakhs) SI. **Quarter Ended Particulars** Nine months Ended Year Ended 9/30/2024 12/31/2024 3/31/2024 No 12/31/2024 12/31/2023 12/31/2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from operations 77.47 82.74 128.39 235.05 380.25 1778.75 29.41 61.32 132.77 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 104.41 46.81 -111.08 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or 29.41 61.32 104.41 132.77 -111.08 46.81 Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or 21.76 64.76 85.88 119.87 -184.94 35.55 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) 0.54 8.95 16.86 -0.03 0.54 for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] ( Refer Note No. 2) Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-) 195.05 195.05 195.05 195.05 195.05 195.05 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited 4,198.22 Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): Basic: 1.12 3.35 4.40 6.17 -9.02 1.87 Diluted: 1.12 3.35 4.40 6.17 -9.02 1.87

Notes:-

The above is an extract of detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2024. The Full format of financial results along with other line items referred in Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 is available on the Company's website www.bazelinternationalltd.com and it can also be accessed "through the QR Code given below.



For BAZEL INTERNATIONAL LTD Pankaj Dawar (Managing Director) DIN: 06479649

On behalf of Board

Date: 12th February, 2025

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

New Delhi

## तय करेंगे चुनाव का टिकट: प्रशांत

मेट्रो मीडिया

किशोर ने आरोप लगाते हुये जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि जो व्यक्ति उनकी पार्टी कहा कि भारतीय जनता से चुनाव लड़ना चाहता है उसका मल्यांकन पार्टी के कार्यकर्ता और (भाजपा) में किसे टिकट मिलेगा स चुनाव लड़ना चाहता ह उसको मुख्यांकन पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। किशोर ने मुख्याद को आगामी विधानसभा चुनाव को लंकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया हि उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी में उन्होंने ला च्यन जनसुगाज से जुड़े कार्यकर्ताओं और तीन स्तरी पर पठित समित के मुख्यांकन के आधार पर किया जाएगा, न कि पार्टी के किया पर किया जाएगा, न कि पार्टी के किया है। उनका समार पर किया जाएगा, न कि पार्टी यह दिल्ली में बैठे नरेन्द्र मोदी-अमित यह दिल्ला में बेठ सरन्द्र मादी-आमत शाह तय करेंगे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में लालू प्रसाद यादव टिकट तय करेंगे और उनके फेसले का आधार सभी जानते हैं। इसी तरक जनता दल युनाईटेड (जदयू) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि उनकी पार्टी से किसे

हा तय कररा कि उनका पाटा स किस टिकट दिया जाएगा। अन्य पार्टियों में टिकट शीर्ष नेतृत्व तय करता है और पार्टी से जुड़ा आम कार्यकर्ता और युवा सिर्फ पार्टी का झंडा लेकर चलेंगे।

## जनसुराज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्टेटहुड बहाली की मांग को लेकर करी की अगुवाई में शुरू हुआ कांग्रेस का अभियान

कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर डोगरो का अपमान करने का लगाया आरोप

जम्म.मेटो मीडिया। केंद्र की नरेंद्र जम्मु, महा माडिया। कह का नरह मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा स्मेर ने जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बनाकर 175 साल पुरानी ऐतिहासिक डोगरा पहचान तथा राजवंश का दर्जा घटाया है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने आज व्यापक जनसंपर्क अभियान की यहाँ उथमुपर

हमीद करों ने कहीं।
उन्होंने कहां कि भाजपा की केंद्र सरकार में एक विशेष दर्जे वाले डोगरा राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाकर डोगरो का घोर अपना क्या है। वहीं, स्टेटहुड के अभाव में यहां के लोगों की तरह-तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहां कि स्टेट और बहाली को लेकर 'इसारी जियानत हमारी नियान जनस्पर्भ कामध्यान का बहा उध्यमुद्ध हो उन्हांन कहा। कर स्टट आद बहाला से शुरुआत की है। हा मारी पुराज्ञ को लेकर हिमारी पिसासत हामार मांग है कि जम्मू करमारें को उसकी हक वैतर तले फिलहाला 15 दिन का स्टेटहुंड जरूद से जरूद वादा को एक व्यापक संपर्क औपयान शुरू जाए। यह बात आज उध्यमुद्द में पार्टी किया गया है, जिसमें पार्टी कामधंत्रकाओं आ उध्यान प्राप्त का कार्यकाओं आ से कहा गया कि वह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इस मुद्दे को लेकर जन-जन तक



संदेश पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह ने स्टेटहुड बहाल किए

किया। परंतु, अब इस बाबत वह कुछ भी करते दिखाई नहीं दे रहे, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर की जनता जरूर मांगेगी।

जिसमें हर देशवासी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। जिसमें आधकारा का उत्साद्ध खासकर दलित पिछड़े तथा

कर देना चाहती है।
स्टेटहुड बहाती की मांग को
लेकर आज से शुरू किए गए
जनसंपर्क अभियान में ताराबंद, रमन
भल्ला, रिवंट, प्रमां, चोधरी लाल
सिंह, बलवान सिंह, अजय लखोतरा,
सुमन वजीर, रिकी दल्होंजा, विजयंत
प्रानिया,।।। चंद्रप्रमा, संतोध मजोजा,
ओम प्रकाश शर्मा, रतनालाल भगत
अल्पाल आमं आहि नेता व पार्टी धर्मनिरपेक्षता के लिए सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी शक्तियों के क्मीनरफेसता के लिए सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी शक्तियां के खिलाफ इमेशा लड़ती आई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजुदा केंद्र सरकार तथा भाजपा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर कान्हा केवल अनादर कर रही है बल्कि उनके लिखे संविधान को भी खत्म कर देना चाहती है। विकास कर श्रेष्टावासी के संवैधानिक यशपाल शर्मा आदि नेता व पार्ट कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। इस अभियान के दौरान पार्टी नेताओं ने चुनाव के दौरान विजली पानी तथा राशन के मुद्दे व डेली वेजर्स आदि को नियमित किए जाने की भी पुरजोर

### नागरिक केंद्रित पारदर्शी शासन प्रणाली विकसित करें युवा अधिकारी: मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने युवा अधिकारियों से नागरिक-केंद्रित, कुशाल और पारदर्शी शासन प्रणाली विकस्तित करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। श्रीमती मुर्मु ने गुरूवार की यहां राष्ट्रपति भवन में भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय भारताय सावस्य संख्या स्वज, जारताव डाक और दूरसंचार (वित्त एवं लेखा) सेवा, भारतीय रेलवे प्रवंधन सेवा (लेखा) और भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक

पारवाक्षाधान आधकारिया के एक समूह से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि चाहें सार्वजनिक वित्त प्रवंधन हो या पूरे देश में निर्वाध संपर्क और सुनिश्चित करना हो, युवा गरियों के पास अपने



अधिकारियों से कहा कि जैसे-जैसे भारत नवाचार और डिजिटल पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत और

राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों में त्वरित सेवा वितरण और दक्षता के साथ–साथ पारदर्शिता और जवाबदेही लिए, सरकारा विभाग का उभरता हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करक अपने सिस्टम को आधुनिक और डिजिटल बनाना आवश्यक है। ऐसी प्रौद्योगिकियों में मशीन लिनैंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

शामल ह। उन्होंने युवा अधिकारियों से उन्नत प्रौद्योगिकियों और कौशल की उन्नत प्राधागाक्या आर काशल का आनकारी रखने तथा और अधिक नागरिक-केंद्रित, कुशल व पारदर्शी शासन प्रणाली विकसित करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये युवा अधिकारी व्यक्तिगत करियर में सफलता झांसिल करने के साथ-साथ देश के लोगों को

मुंबई, एजेंसी।

नहीं हो सकता।

### हालत दूसरे के घर बर्तन धोने जैसी: एनसीपी

शिवसेना (युबीटी) की

मुंबई,एजेंसी।शिवसेना (यूबीटी) के नता आदित्य टाकरे के दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुलाकात पर रामुवादी कांग्रेस पार्टी (एन्सीपी) के प्रकात आनंद परांज्ये ने तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना (जूबीटी) की हालत रदूसरे के घर में बतने जाने जेतीर है। आनंद परांज्ये ने आहित्य ठाकरे का नाम लिए बिना कहा, उन्हें शायद शरद पयार ने वक नहीं दिया है, इसीलिए वह दिल्ली में जाकर कांग्रेस और आप से मिल रहे हैं।

करन क साथ-साथ दश क लागा का रह हा सरकारी सेवाओं के प्रभावी वितरण आज के समय में शिवसेना में योगदान देने के लिए भी (यूबीटी) की हालत दूसरे के घर में प्रयास करेंगे। वर्तन धोने वाली हो गई है।

### मदरसों की जांच के विरोध में एक एक नजर हुए एनसीपी के दोनों गुटों के सुर

महाराष्ट्र के केविनेट के मंत्री एवं भाजपा नेता नितेश राणे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य के सभी मदरसों की जांच राज्य के सभी मदरसा की जांच कराए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस बीच, उनकी इस मांग एनसीपी और जार प्रचार के नेतृत्व वाली एनसीपी और जार प्रचार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एससी) दोनों ने विरोध किया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजधे ने गुरुवार को बात करते हुए नितंश राणें की मांग का विरोध किया है। एनसीपी ने कहा. का विरोध किया है। परांजपे ने कहा,

हो या महाराष्ट्र पुलिस, उसे रोकने में सक्षम है। लेकिन सिर्फ धर्म से संबंधित या सभी मदरसों की जांच की मांग बहुत गलत है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर एसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास महरसे को लेकर कोई सब्दत या जानकारी है, तो वह मुंबई पुलिस बा गृहमंत्री से संपर्क कर और जांच की मांग कर सकते हैं। लेकिन किसी धर्म को टारगेट करना डीक नहीं है। एमसीपी उनकी इस मांग का विरोध करती है। इससे पहले, एमसीपी (एसपी) के विधायक जितंदु, आव्हाड ने भी कहा, मदरसों की राज्य सरकार ही क्यों. सीबीआई. सीआईए. मोसाद और एफबीआई को भी जांच

बदलाव होते हैं: बघेल

नई दिल्ली,एजेंसी। हरि महाराष्ट्र के बाद हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव कर सकती है। माना ज रहा है कि संगठन को मजबती देने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मुख्य जिम्मेदारी सोंपी जा सकती है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने रहा है। वह गुरुवार को दिल्ली में और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से भूपेश बघेल ने कहा, यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि विचारों का आदान-

था, बोल्क विचारा का आदान-प्रदान था। हमारे राज्य में होने वाले आगामी नगर निगम और पंचायत राज चुनावां के संदर्भ में कुछ चर्चाएं हुई। मैंने केवल इन्हीं मामलों पर चर्चा की और विचारों का आपसी आदान-प्रदान हुआ। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दारान पाटा के राष्ट्राय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ारे, सांसद राहुल गांधी और विष्ठ नेता केसी. वेणुगोपाल मोजूद थे। संगठन में बदलाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आखिरकार, यह हाईकमान क विशेषाधिकार है। ऐसे मामलों में हमारा कुछ कहना नहीं है। जहां भी काम सोंपेगा. सभी उसके अनुसार चलेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब-जब मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने निवंहन किया है।

-7.0

### वेटिवर घास की खेती के लिये एक पायलट परियोजना शुरूः सुक्खु

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश क मुख्यमंत्रा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिये एक पायलट परियोजना शुरू की गयी है, जो अपनी गहरी और घनी जड़ों के कारण मिट्टी को मजवृती से बांधती और भूमि कटाव को रोकती है। सुक्खू ने कहा कि वेटीवर घास का उपयोग विश्व भर में विशेष रूप को उपयोग विश्व भर में विशेष रूप से भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिये व्यापक रूप से किया जाता है।

सस्टनाबालटा इानाशएट०स (सीआरएसआई) तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिये स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के लिये यह परियोजना शुरू

सीआरएसआई से वेटिवर नर्सरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने

#### हम नशा माफिया के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगेः नरेश चौहान

शिमला,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के 19मत्ता, एजसा। हिमाचल प्रदश क मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने 15 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक को लंकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पहले इस बैठक को रद्द कर दिया गया था। लेकिन, अब यह बैठक 15 फरवरी को होगी। नशे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशा माफिया के खिलाफ ठोस मुहिम

चाल रही है। उन्होंने कहा कि नशे के मामलों में सख्ती बरती गई है और पड़ोसी राज्य पंजाब से नशा हिमाचल प्रदेश



कोई भी किसी को सम्मान दे सकता लेकिन दोनों बच्चे अपने ही होते हैं। राजनीति के विचारों में अंतर हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति खराब होती चली गईं, क्योंकि हम है, राजनीति में कोई किसी का दश्मन



उन्होंने आगे कहा, मैंने अनुभव किया है कि पिछले दस सालों में

दुश्मनी बहती चली गई। फिर भी में (यूबीटी) के स कहता हूं कि शरद पवार जैसी को उन्होंने राजनीति सभी को करनी चाहिए। नहीं बताया।

एकनाथ शिंद की राजनीति से अरद प्रवार का कोई लेना-देना नहीं है। 'इंडिया गॉट लेटेंट' विवाद पर जितंद्र आव्हाड ने रणवीं र इलाहावादिया का विना नाम तिए कहा, उन्हें अवॉर्ड किसने दिया? वो किसका आइकॉन है? जरा उसकी तरफ भी लोग देखे, जिसने उसकी आइकॉन वनावा। उस आइकॉन को औरट किया जाएगा? शिवसेना शिंटो के नेना प्रवाध शिवसेना (शिंदे) के नेता प्रताप

जाधव की डिनर पार्टी में शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शामिल होने को उन्होंने कळ भी गलत

#### सुसब्धू ने कही कि बटाबर घास उपलब्ध करवान को आग्रह किया है उपयांग विषय भर में वियोध रूप लाकि 2025 के मानसून सीजन से भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों, राजमार्ग पहले पर्योध मात्रा में पोधे उसलब्ध हो बंधों और नहीं के किनारों पर मिद्धों सके। सीओरएसआई ने एक हजार क्षण के लिये व्यापक रूप से वेटिवर घास के पोधे निःशुल्क या जाता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुये के कृषि विभाग के सहयोग से वाबल प्रदेश राज्य आयदा प्रवंधन सोलन जिले के बेराटी में स्वाधित प्रकृता ने जेटिकर फारदेशन- क्योंग्री संवाधाया ग्राथ है। नहां हा सकता। एन्सीपी (एसपी) विधायक जितंद्र आव्हाङ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, रूथे बात गलत है। कोई भी किसी का भी सम्मान कर सकता है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। एक घर में **FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED** Regg. Umce: 25,Bazar Lane, Bengali Marki CIN: L51503DL1986PLC024329, Tel. No.: 011-435 E-mail: firl.nbfc@gmail.com, Website में आ रहा है, जिसे लेकर हम पूरी प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन- नर्सरी में लगाया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायव सेनी ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद जनता से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों में और तेजी लाने के साथ-साथ नई परियोजनाओं पर भी तीव्र गति से पारयाजनाओं पर भा ताव गात स कार्य किया जाएगा। सेनी ने शुक्रवार नारनोंद में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे निकाय चुनाव

में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधि की जीत सुनिश्चित कर क्षेत्र को विकास के मामले में आगे

क्षत्र का विकास के मामल में आग बढ़ाने का काम करें। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसते हुये कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान श्री केजरीवाल द्वारा तरह तरह



की अफवाहें फैलाई गई और कहा हैं। हरियाणा के लोग सनातन की अफवाह फलाइ गई आर कहा कि हरियाणा ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया, लेकिन जन्म तो श्री केजरीवाल का भी यहीं हुआ है, हरियाणा के लोग तो ऐसे है जा स्वयं जहर पीकर दूसरों को अमृत पिलाते

उनका झूठ नहीं चला और दिल्ली की जनता ने भाजपा को मजबूत जनादेश देते हुये प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी पांच तारीख को मतदान हुआ और आठ को नतीजा आया तथा भाजपा की 48 सीट आयीं।

की 48 सीट आयीं। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ और वहां भी भाजपा के 48 उम्मीदावारों ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने यमुना मेया को साफ करने का दावा किया था लेकिन 10 सालों में जनता से झुठे वायदे करते साला म जनता से बुठ वायद करत कुट स्वाया अपनीत उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय आये, उसे स्वीकार करे और सबको साथ लेकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करवाये।

निकाय चुनाव के बाद विकास कार्यों में लायेंगे तेजी: सैनी हमारे रिश्तों की बनियाद मजबत रहेगी: संजय सिंह नई दिल्ली,एजेंसी। आम आदमी

पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता संजय पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि चुनाव परिणाम की चिंता किए बिना हमारे रिश्ते की बुनियाद मजबूत रहेगी ओर देश के लिए काम करेगे। सिंह ने शियसेना के नेताओं आदित्य ठाकरे, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविद साबंत

और उद्धव वाला साहेव ठाकरे शिवसेना गुट के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह बहुत अच्छी वात है जानार व्यक्त करते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि चुनाव परिणाम की चिंता किए विना हमारे रिस्ते की बुनियाद मजबूत रहेगी।

# (Rs. In L 42.5

कहा,अब भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ल रही है

### दुनिया में भारतीय संस्कृति का महत्व बढ़ रहा है: शेखावत

नई दिल्ली, मेट्रो मीडिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और दश का सास्कृतक, आथक आर बेशियक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारत का प्रभाव केवल अपने सीमित भूभाग तक नहीं, बेल्कि मध्य एशिया तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शेखावत ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईबोएनसीए) में केन्द्रीय संस्कृति संजालय से और में आर्थीवत मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय पहल 'प्रोजेक्ट मौसम' 'मानसनः द स्फीयर ऑफ कल्चरल एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस' शीर्षक से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन



विश्वविद्यालय के एडवांस स्टडी इंस्टीट्युट ऑफ एशिया के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर मख्य अतिथि केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सिच्चदानंद जोशी 'एशिया' के शोध निदेशक प्रो. अमोघ राय और आईजीएनसीए के 'प्रोजेक्ट मौसम्' के निदेशक डॉ अजित कुमार सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।शेखावत ने कहा, हमारे यहां से लेकर के मध्य एशिया तक. सब देशों के बीच हमारी संस्कृति का प्रभाव निर्विवाद रूप से दिखाई देता

है और उसके चलते जो वृहत्तर भारत की कल्पना है, उसका मूल आधार भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक संपन्नता है। उन्होंने कहा,अब भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है, भारत की पहचान बदल रही है, भारत की पहचान बदल्त रहा है, भारत का जनशांक बढ़ रहा है और पूरे विश्व में भारत की क्षमताओं का प्रभूत्व नए सिरे से स्थापित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक टूपिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से प्रगति की है और आज पुरा विश्व एक बार फिर नए सिरे से भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा है और जब भारत की ये महत्ता स्थापित होती है, तो निश्चित रूप से हमारी सांस्कृति महत्ता भी स्थापित होती है।

#### SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED

Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) for continuing and discontinuing of

_			Stand	falone			Consol		(Rs. In Lacs
SI.	Particulars	Quarter Ended		Nine months Ended	Year ended	Quarter Ended		Nine months Ended	Year
		31.12.2024 Unaudited		31.12.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited	31.12.2024 Unaudited		31.12.2024 Unaudited	31.03.2024 Audited
1.	Total Income	245.38	237.19	896.43	1360.09	446.77	417.34	2924.12	4387.10
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.89	56.70	71.19	221.43	-15.52	-12.75	134.24	280.62
3.	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.89	56.70	71.19	221.43	-15.52	-12.75	134.24	280.62
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.89	56.70	71.19	187.81	27.38	239.40	239.64	584.28
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax)	8.89	56.70	72.41	2698.58	27.38	239.40	239.64	3095.05
6.	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- per share)	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year								
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) for continuing and discontinuing operations) Basic:	0.06	0.41	0.51	1.36	0.28	1.97	1.51	3.73